



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक

WEEKLY

सं. 26] नई दिल्ली, जुलाई 2—जुलाई 8, 2017, शनिवार/आषाढ 11—आषाढ 17, 1939
No. 26] NEW DELHI, JULY 2—JULY 8, 2017, SATURDAY/ASADHA 11—ASADHA 17, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 29 जून, 2017

सा.का.नि. 229.—केन्द्रीय सरकार, सशस्त्र सीमा बल अधिनियम, 2007 (2007 का 53) की धारा 155 की उप-धारा (2) के खंड (क) और (ग) के साथ पठित उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सशस्त्र सीमा बल योद्धक चिकित्सा काडर (अ-व्यवसायिक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सशस्त्र सीमा बल योद्धक चिकित्सा काडर (अ-व्यवसायिक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- सशस्त्र सीमा बल योद्धक चिकित्सा काडर (अ-व्यावसायिक) समूह 'ख' और समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2012 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पदों की संख्या उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।” ;

3. उक्त नियमों की अनुसूची में,—

(क) उप निरीक्षक (चिकित्सा) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 1 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4) में,—

(i) शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा, अर्थात् :—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर” ;

(ii) विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी जाएगी, अर्थात्:—

“स्तर-6 (35400-112400 रु.)” ।

(आ) स्तंभ (11) में,—

(i) उप शीर्षक “प्रोन्नति” शीर्षक के अधीन, टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ii) उप शीर्षक “प्रतिनियुक्ति” के अधीन, टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा;

(ख) सहायक उप-निरीक्षक (चिकित्सा) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 2 के सामने, —

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

“स्तर-5 (29200-92300 रु.)” ;

(आ) स्तंभ (11) में,

(i) उप शीर्षक “प्रोन्नति” के अधीन, टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(ii) उप शीर्षक “प्रतिनियुक्ति” के अधीन, टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा;

(ग) हैड कांस्टेबल (चिकित्सा) के पद से संबंधित क्रम संख्याक 3 के सामने,—

(अ) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएगी, अर्थात्:—

“स्तर-4 (25500-81100 रु.)” ;

(आ) स्तंभ (11) में,—

(I) उप शीर्षक “प्रोन्नति” के अधीन,—

(i) शब्दों, अंकों और अक्षरों के स्थान पर “ वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2000 रु.”

शब्द, अंक और अक्षर “वेतन मैट्रिक्स (21700-69100 रु.) में स्तर-3” रखे जाएंगे;

(ii) टिप्पण 2 का लोप किया जाएगा;

(II) उप शीर्षक “प्रतिनियुक्ति” के अधीन टिप्पण 4 का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. 8/3/एसएसबी/सीएससी/बीएन/ग्रुप ‘बी’ एड ‘सी’/मेंडिस/2016/एसएफएस]

आर. बी. एस. नेगी, उप सचिव

टिप्पण :—मूल नियम, अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 348 (अ), तारीख 9 मई, 2012 द्वारा भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 29th June, 2017

G.S.R. 229.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (a) and (c) of sub-section (2) of section 155 of the Sashastra Seema Bal Act, 2007 (53 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Sashastra Seema Bal Combatised Medics Cadre (Non-professional) Group ‘B’ and ‘C’ posts Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Sashastra Seema Bal Combatised Medics Cadre (Non-professional) Group ‘B’ and ‘C’ posts Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Sashastra Seema Bal Combatised Medics Cadre (Non-professional) Group ‘B’ and ‘C’ posts Recruitment Rules, 2012 (hereinafter referred to as the said rules), for rule 3, the following rule shall be substituted, namely:—

“3. Number of posts, classification and level in the pay matrix.—The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.” ;

- (3) In the said rules, in the Schedule,—

(a) against serial number 1 relating to the post of Sub-Inspector (Medic),—

(A) in column (4),-

- (i) for the heading , the following heading shall be substituted, namely:-

“Level in the pay matrix.” ;

- (ii) for the existing entry, the following entry shall be substituted, namely:-

“ Level-6 (Rs. 35400-112400/-).”.

(B) in column (11),—

- (i) under sub-heading “Promotion”, Note 2 shall be omitted;

- (ii) under sub-heading “Deputation”, Note 4 shall be omitted;

- (b) against serial number 2 relating to the post of Assistant Sub-Inspector(Medic) ,-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—

“ Level-5 (Rs. 29200-92300/-)” ;

(B) in column (11),—

- (i) under sub-heading “Promotion”, Note 2 shall be omitted ;

- (ii) under sub-heading “ Deputation”, Note 4 shall be omitted;

- (c) against serial number 3 relating to the post of Head Constable (Medic),-

(A) for the entries under column (4), the following entries shall be substituted, namely :-

“ Level-4 (Rs. 25500-81100/-)” ;

(B) in column (11),—

(I) under sub-heading “Promotion”,—

(i) for the words, figures and Letters “Pay Band-1, Rs.5200-20200/- plus Grade Pay of Rs.2000”, the words, figures and Letters “level-3 in the pay matrix (Rs. 21700-69100/-)” shall be substituted;

(ii) Note 2 shall be omitted;

(II) under sub-heading “Deputation”, Note-4 shall be omitted.

[F. No. 8/3/SSB/CSC/Bn./Gp ‘B’ & ‘C’/Medics/2016/SFS]

R.B.S. NEGI, Dy. Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification number G.S.R 348(E), dated the 9th May, 2012.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

(विधि साहित्य प्रकाशन)

नई दिल्ली, 20 जून, 2017

सा. का. नि. 230—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन में बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (एम. टी. एस.) समूह ‘ग’ पद भर्ती नियम, 2013 को अधिकांश करते हुए विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन में बहु-कार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, विधि साहित्य प्रकाशन में बहु-कार्य कर्मचारिवृंद (समूह ‘ग’ पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स.**—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण उनसे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में लेवल वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिनका पति या जिनकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर भर्ती का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की वाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों प्रभूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	चयन पद है अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
बहु-कार्य कर्मचारिवृंद	16* (2017 कार्यभार के आधार पर)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित	लेवल-1 वेतन मैट्रिक्स में (18,000—56,900 रु. 18,000—56,900 रु.)	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगे
(6)	(7)	(8)
टिप्पण : आयु : 18 और 25 वर्ष के बीच आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा प्रकाशित अनुसार होगी	मान्यता प्राप्त बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण या समकक्ष	लागू नहीं होता

परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(9)	(10)	(11)
दो वर्ष	सीधी भर्ती : टिप्पण : पदधारी के एक या अधिक अवधि के लिए प्रतिनियुक्ति पर चले जाने या लंबी बीमारी या अध्ययन छुट्टी के कारण या अन्य परिस्थितियों के अधीन कारित हुई रिक्ति प्रतिनियुक्ति आधार पर केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से भरी जा सकेगी :- (क) जो मूल काडर या विभाग में, नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं या (ख) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हताएं धारण किए हुए हैं।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	लागू नहीं होता
1. प्रधान संपादक, (विधि साहित्य प्रकाशन) —अध्यक्ष	
2. संपादक, (विधि साहित्य, प्रकाशन) —अध्यक्ष	
3. उप-सचिव या अवर सचिव, (विधि साहित्य प्रकाशन) —सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/1/2017-वि.सा.प्र. (प्रशा.)]

देबदत्त बेहेरा, अवर सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

(VIDHI SAHITYA PRAKASHAN)

New Delhi, the 20th June, 2017

G.S.R. 230.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in suppression of the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan, Multi Tasking Staff. Group 'C' Posts Recruitment Rules, 2013, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi Tasking Staff in the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan, namely:—

- Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Law and Justice, Legislative Department, Vidhi Sahitya Prakashan, Multi Tasking Staff (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

- Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- Method of recruitment, age-limit, qualification, etc.**—The method of recruitment to the said post, age-limit, qualification and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- Disqualification.**— No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen or any other special category of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Multi Tasking Staff.	16* (2017) * Subject to variation depending on workload	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level -1 the pay matrix (Rs. 18000-56900).	Not applicable	Between 18 and 25 years of age. Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of Probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Pass 10 th class or equivalent from a recognised Board.	Not applicable.	Two years.	By direct recruitment Note: Vacancy caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled in deputation basis from officers of the Central Government,— (a) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; and (b) possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :— 1. Chief Editor (Vidhi Sahitya Prakashan) - Chairman 2. Editor (Vidhi Sahitya Prakashan) - Member 3. Deputy Secretary or Under Secretary (Vidhi Sahitya Prakashan) - Member	Not applicable

[F. No. A-12018/1/2017-VSP (A)]

DEBADUTTA BEHERA, Under Secy.

मानव संसाधन विकास मंत्रालय**(उच्चतर शिक्षा विभाग)**

नई दिल्ली, 13 जून, 2017

सा.का.नि. 231. —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (लेखा लिपिक) भर्ती नियम, 2016 में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (लेखा लिपिक) संशोधन नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (लेखा लिपिक) भर्ती नियम, 2010 में—

(क) नियम 2 में, “वेतनमान” शब्दों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” और “ग्रेड वेतन/वेतनमान” शब्दों के स्थान पर क्रमशः “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची के स्तंभ (4) में, शीर्षक के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” और प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 4 (25,500-81,100 रु.)” क्रमशः रखा जाएगा।

(ग) स्तंभ (12) में, “प्रतिनियुक्ति” उप शीर्षक के अधीन, (ii) प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर 3 (21,700-69,100 रुपए)” या समतुल्य में क पदों में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो या वेतन मैट्रिक्स में स्तर 2 (19,900-63,200 रुपए) या समतुल्य के पदों में आठ वर्ष नियमित सेवा की हो”

[फा. सं. ए. 12018/4/2009/ई-II]

अचिन्त कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)**

New Delhi, the 13th June, 2017

G.S.R. 231.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education (Accounts Clerk) Recruitment Rules, 2016, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education (Accounts Clerk) Amendment Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education (Accounts Clerk) Recruitment Rules, 2010,—

(a) in rule 2, for the words “Scale of Pay”, the words “Level in the Pay Matrix” and for the words “Pay band and Grade Pay/Pay Scale”, the words “Level in the Pay Matrix” shall respectively be substituted;

(b) in the Schedule, in column (4), for the heading, the heading “Level in the Pay matrix” and for the entries, the entries “Level 4 (Rs. 25,500 – 81,100) in the Pay matrix” shall respectively be substituted.

(c) in column (12), under the sub-heading “Deputation”, for the entries in (ii), the following shall be substituted namely:—

“with five years regular service in posts in the Level 3 (Rs. 21,700 – 69,100) in the Pay Matrix or equivalent or with eight years regular service in posts in the Level 2 (Rs. 19,900 – 63,200) in the Pay Matrix or equivalent”.

[F. No. A.12018/4/2009/E-II]

ACHINT KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जून, 2017

सा.का.नि. 232.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (कलाकार) भर्ती नियम, 2011 में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

- 1 संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (कलाकार) भर्ती संशोधन नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

- 2 मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग (कलाकार) भर्ती नियम, 2011 में—**

(क) **नियम 3** में, “वेतनमान” शब्दों के स्थान पर, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” और “वेतन बैंड, ग्रेड वेतन/वेतनमान” शब्दों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” क्रमशः शब्द रखे जाएंगे।

(ख) अनुसूची में, स्तंभ (4) में, शीर्षक के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शीर्षक रखा जाएगा और प्रविष्टियों के स्थान पर “वेतन मैट्रिक्स में स्तर 6 (35,400-1,12,400 रु.)” प्रविष्टियां रखी जाएंगी।

[फा. सं. ए. 12018/2/2009/ई-II]

अचिन्त कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 13th June, 2017

G.S.R. 232.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education (Artist) Recruitment Rules, 2011, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education (Artist) Amendment Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education (Artist) Recruitment Rules, 2011,

(a) in rule 3, for the words “Scale of Pay”, the words “Level in the Pay Matrix” and for the words “ Pay Band and Grade Pay/Pay Scale”, the words “ Level in the Pay Matrix” shall respectively be substituted;

(b) in the Schedule, in column (4), for the heading, the heading “ Level in the Pay Matrix” and for the entries, the entries “ Level 6 (Rs. 35,400 - 1,12,400) in the Pay Matrix” shall respectively be substituted.

[F. No. A. 12018/2/2009/E-II]

ACHINT KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 25 मई, 2017

सा.का.नि. 233.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी I, श्रेणी II और साधारण श्रेणी) भर्ती नियम, 2015 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी I, श्रेणी II और साधारण श्रेणी) भर्ती (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी I, श्रेणी II और साधारण श्रेणी) भर्ती नियम, 2015 में—

(क) नियम 2 में “वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान” शब्दों के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं, “वेतन मैट्रिक्स में स्तर” शब्द रखे जाएंगे;

(ख) अनुसूची में—

(i) स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-I के पद से संबंधित प्रविष्टियों में—

(अ) स्तंभ (4) में शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”;

(आ) स्तंभ (4) के अधीन की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5”;

(इ) स्तंभ (11) के अधीन “वेतन बैंड-1 (5,200-20,200/-रु.) + ग्रेड वेतन 2400/-रु.” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4”

(ii) स्टाफ कार ड्राइवर ग्रेड-II के पद से संबंधित प्रविष्टियों में—

(अ) स्तंभ (4) के अधीन की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4”;

(आ) स्तंभ (11) के अधीन “वेतन बैंड-1 5,200-20,200/-रु.+ ग्रेड वेतन 1900/-रु.” प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2”;

(iii) स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) के पद से संबंधित प्रविष्टियों में—

(अ) स्तंभ (4) के अधीन की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2”;

(आ) स्तंभ (11) के अधीन प्रतिनियुक्ति या आमेसन से संबंधित पैराग्राफ में “वेतन बैंड-1 (5,200 रु.-20,200 रु.)+ ग्रेड वेतन 1800/-रु.” के स्थान पर जहां जहां वे आते हैं दोनों स्थानों पर क्रमशः निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1”

[फा. सं. ए-12018/4/2014-स्था. III]

अचिन्त कुमार, अवर सचिव

पाद टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में, सा.का.नि. 33 द्वारा तारीख 25 फरवरी, 2015 को प्रकाशित किए गए थे।

New Delhi, the 25th May, 2017

G.S.R. 233.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Staff Car Driver (Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2015, namely:—

1. **Short title and commencement .**—(1) These rules may be called the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Staff Car Driver (Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Staff Car Driver (Grade I, Grade II and Ordinary Grade) Recruitment Rules, 2015, —

(a) in rule 2, for the words “Pay Band and Grade Pay or Scale of Pay” and “Pay Band and Grade Pay or the Scale of Pay” where ever they occur, the words “Level in the Pay Matrix” shall be substituted;

(b) in the Schedule,—

(i) in the entries relating to the post of Staff Car Driver Grade-I, —

(A) in column (4), for the heading, the following heading shall be substituted, namely:—
“Level in the Pay Matrix”;

(B) for the entry under column (4), the following entries shall be substituted, namely:—
“Level – 5 in the Pay Matrix”,

(C) Under column (11), for the entry “Pay Band (Rs.5200-20200) plus Grade Pay of Rs.2400/-“, the following entry shall be substituted, namely:-

“Level- 4 in the Pay Matrix”;

(ii) in the entries relating to the post of Staff Car Driver Grade –II,—

(A) for the entry under column (4), the following entry shall be substituted, namely:—
“Level - 4 in the Pay Matrix”;

(B) under column (11), for the entry “Pay Band-1, (Rs.5200-20200) plus Grade Pay of Rs. 1900/-“, the following entry shall be substituted, namely:-

“Level-2 in the Pay Matrix”;

(iii) in the entries relating to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade),—

(A) for the entry under column (4), the following entry shall be substituted, namely:—

“Level - 2 in the Pay Matrix”;

(B) under column (11), in the paragraph relating to Deputation or Absorption, for the entry “Pay Band-1, (Rs.5200-20200) plus Grade Pay of Rs.1800/-“, occurring at both the places, the following entry shall respectively be substituted, namely:—

“Level-1 in the Pay Matrix”;

[F. No. A-12018/4/2014 -E.III]

ACHINT KUMAR, Under Secy.

Foot Note.—The Principal Rules were published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), vide GSR 33, dated the 25th February, 2015.

शहरी विकास मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 234.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, (अधीनस्थ कार्यालय) आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, (अधीनस्थ कार्यालय) आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग') भर्ती (संशोधन)नियम, 2017 हैं।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, (अधीनस्थ कार्यालय) आशुलिपिक ग्रेड-II (समूह 'ग') भर्ती नियम, 2012 में,—

(1) नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“पद की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।”

(II) अनुसूची में,—

(i) स्तंभ (4) के शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक रखा जाएगा,

अर्थात् :—

“वेतन मैट्रिक्स में स्तर”;

(ii) स्तंभ (4) के अधीन प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी:—

अर्थात् :—

“स्तर 4”;

टिप्पणी – मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग II खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 170, तारीख 11 जुलाई, 2012 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

[फा. सं. 49/4/2016-एस एण्ड डी/पीएफ-4/ई. डब्ल्यू-II]

माधवी मोहन, अवर सचिव (ई. डब्ल्यू-I)

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R . 234—In exercise of the power conferred by the proviso to article 309 of the constitution, the president hereby makes the following rules to amend the Central Public Works Department, (Subordinate Offices) stenographer Grade – II (Group ‘C’) Recruitment Rules, 2012, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Stenographer Grade – II (Group ‘C’) Recruitment (Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Public Works Department (Subordinate Offices) Stenographer Grade – II (Group ‘C’), Recruitment Rules, 2012,-

(1) For rule 3, the following rules shall be substituted, namely:—

“3.number of post , classification and level in the pay matrix,

The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the said schedule.”,

(2) In the Schedule,—

- (i) For the heading to column (4), the following heading shall be substituted, namely:—
“Level in the pay matrix”.
- (ii) For the entries under column (4), the following entry shall be substituted namely:—
“Level 4”.

[F. No. 49/4/2016-S&D/PF4-EW-II]

MADHAVI MOHAN, Under Secy. (EW-I)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub section (i) vide notification number G.S.R. 170 dated the 11th July, 2012.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 235.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी सी जी टीका प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 1981 जहां तक आशुलिपिक (ज्येष्ठ) के पद से संबंधित है, को उन बातों के सिवाए अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी. सी. जी. टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई में आशुलिपिक श्रेणी I के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. टीका प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, आशुलिपिक श्रेणी I (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि :—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची/पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
आशुलिपिक श्रेणी-I	1 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अनुसचिवीय	स्तर – 6 (35400-112400 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा सभी विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	मिश्रित पद्धति (प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेसन किया जाएगा।

(11)

प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक श्रेणी-II के पद में ऐसे अधिकारी पद धारण कर रहे हैं

(i) मूल संवर्ग या विभाग नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हो

(ii) स्तर -4 (25500-81000 रु.) या समतुल्य में दस वर्ष सेवा की हो।

स्तर -4 (25500-81000 रु.) में विभागीय आशुलिपिक श्रेणी- 2 जिसने श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की हो, बाध्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा यदि पद की नियुक्ति के लिए विभागीय अभ्यर्थी से चयन किया जाता है, इस प्रोन्नति द्वारा भरे जाने के लिए समझा माना जाएगा

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

[फा. सं.ए-12018/17/2014-ई पी आई]

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R. 235.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the B. C. G. Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, (Group ‘C’ posts), Recruitment Rules, 1981 in so far as they relate to the post of Stenographer (Senior), except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Stenographer Grade-I in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai namely: —

1. **Short title and commencement .**—(1)These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Stenographer Grade-I (Group ‘B’ post), Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into the force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, Level in the Pay Matrix.**—The number of post, its classification, the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—the method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post;

Provided that, the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

5. **Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the the ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Level in the Pay Matrix
1	2	3	4
Stenographer (grade-I)	1* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Services, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level-6 (Rs. 35400-112400/-)

Whether Selection post/ Non Selection Post	Age-Limits for Direct Recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	6	7
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruitment will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment; whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
8	9	10
Not applicable	Two years for promotees	By composite method (deputation/ promotion).

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, levels from which promotion or deputation or absorption to be made.	If a Department Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment
11	12	13
Deputation:- Officers holding the post of Stenographer under the Central Government: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department,. or (ii) with ten years regular service in the level-4 (Rs. 25500-81100/-) or equivalent. The departmental Stenographer Grade II in level-4 (Rs. 25500-81100/-) with ten years regular service in the grade is to be considered along with the outsiders. If the departmental candidate is selected for appointment to the post, it shall be treated as having been filled by promotion.	Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

<p>Note 1: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.</p> <p>Note 2: The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.</p>		
--	--	--

[F. No. A-12018/17/2014-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 30 जून, 2017

सा.का.नि. 236. — राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, मद्रास 1976 अधिकांत करते समय जहां तक चपरासी और झाडुकश के पद से संबंधित है, अधिक्रमण किया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी चेन्नई में बहु कार्य कर्मचारिवृंद के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, बी.सी.जी. वैक्सीन प्रयोगशाला, गिंडी, चेन्नई, बहु कार्य कर्मचारिवृंद (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि .—भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है,; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय – समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बहु कार्य कर्मचारिवृंद	10 * (2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ग' अननुसचिवीय	स्तर – 1 (18,000-56900 रुपये)	लागू नहीं होता	18 वर्ष से 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके चालीस वर्ष तक और अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके पैंतालीस वर्ष की जा सकती है) टिप्पण 1 :- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख, खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अहर्ताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेदन द्वारा सभी विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
मैट्रिकुलेशन या समतुल्य	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण :- पदधारी के प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियाँ केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों में से

			<p>प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी –</p> <p>(क) (i) नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण किए हो, अथवा</p> <p>(ii) वेतन – मैट्रिक्स के स्तर -1 (18000-56900 रु.) के तहत आने वाले पद पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो, और</p> <p>(ख) जिनके पास स्तंभ (7) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।</p>
--	--	--	--

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।

(11)

लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
<p>समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. सहायक निदेशक, बी सी जी, वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - अध्यक्ष 2. प्रशासनिक अधिकारी, बी सी जी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य 3. तकनीकी अधिकारी, बीसीजी वैक्सीन प्रयोगशाला, चेन्नई - सदस्य 4. केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार से राजपत्रित अधिकारी - सदस्य 	लागू नहीं होता

[फा. सं. ए – 12018/05/2016 – ई पी आई]

बी. एल. मीणा, अवर सचिव

New Delhi, the 30th June, 2017

G.S.R. 236—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Madras, Recruitment Rules, 1976, in so far as they relate to the post of Office Peon and Sweeper, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Multi -Tasking Staff, in the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, namely: —

1. **Short title and commencement** .—(1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, BCG Vaccine Laboratory, Guindy, Chennai, Multi-Tasking Staff (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, level in the pay matrix.**—The number of post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
3. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc .**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.
4. **Disqualification.**—No person, -
- who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
6. **Saving .**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Multi – Tasking Staff.	10* (2017) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group ‘C’, Non-Ministerial.	Level-1, in the pay matrix. (Rs.18000-56900).

Whether selection or non – selection post.	Age-limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(5)	(6)	(7)
Not applicable	Between 18 and 25 years. (Relaxable for Government servants upto the age of forty years in the case of general candidates and upto forty-five years in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government from time to time). Note.- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Island and Lakshadweep.	Matriculation or equivalent from a recognized Board.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note.: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government.</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with five years regular service in posts in the level-1, in the pay matrix (Rs.18000-56900); and</p> <p>(b) Possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under Column (7).</p>

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not applicable	<p>Group-C Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <p>(1) Assistant Director, BCG Vaccine Laboratory, Chennai - Chairman</p> <p>(2) Administrative Officer, BCG Vaccine Laboratory, Chennai - Member</p> <p>(3) Technical Officer, BCG Vaccine Laboratory, Chennai - Member</p> <p>(4) Gazetted officer from Central Government or State Government - Member</p>	Not applicable

[F. No. A-12018/05/2016-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.